

जामिया मिल्लिया इस्लामिया
जनसंपर्क एवं मीडिया समन्वयक कार्यालय
प्रेस विज्ञप्ति 31 दिसंबर, 2020

जामिया का सीआईई 'इनोवेटिव आइडियाज फॉर स्टार्ट-अप' पर प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है

जामिया मिल्लिया इस्लामिया का सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (सीआईई), 'जस्ट रोजगार सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड' एंड जस्ट लर्न- ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड मोबाइल ऐप से मिलकर "इनोवेटिव आइडियाज फॉर स्टार्ट-अप" पर एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। यह प्रतियोगिता ई-लर्निंग और कंटेंट डेवलपमेंट, जॉब पोर्टल, बिजनेस सेल, परचेज़ प्लेटफॉर्म और मेंटल स्ट्रेस मॉनिटरिंग एवं मैनेजमेंट जैसे विषयों पर आधारित होगी।

सीआईई के प्रभारी निदेशक प्रो अरशद नूर सिद्दीकी ने बताया कि यह जामिया के सीआईई और 'जस्ट रोजगार सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड' एंड जस्ट लर्न- ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ स्टार्ट-अप स्थापित करने की इच्छा रखने वाले हमारे छात्रों के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करने में सहायक होगा। जामिया अपने छात्रों को स्टार्ट-अप शुरू करने और रोजगार प्रदाता बनने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करता है।

स्टार्ट-अप शुरू करने के सर्वोत्तम विचार या नए स्थापित स्टार्ट-अप के लिए, जस्ट रोजगार सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रारंभिक निधि के रूप में 10 लाख रूपए मुहैया कराए जाएंगे।

जस्ट रोजगार सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के एंजेल इंवेस्टर एवं संस्थापक श्री अभिषेक आर चोला, जो कि जामिया के पूर्व छात्र हैं, ने बताया कि स्टार्ट-अप इंडिया एवं आत्मनिर्भर भारत की दिशा में पहला कदम है।

इस आयोजन का मुख्य आकर्षण यह है कि जामिया के छात्र, मौजूदा उत्साही / पेशेवर / संभावित स्टार्टर / स्टार्ट-अप में शामिल होने या उसके साथ सहयोग करने का मौका पा सकेंगे।

पंजीकरण: 6 जनवरी, 2021 से शुरू होकर, 18 जनवरी, 2021 तक चलेगा।

प्रतियोगिता: 8 फरवरी, 2021 को से शुरू होकर 9 फरवरी 2021 तक चलेगी।

मोड: ऑनलाइन

ऑफलाइन: डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर
सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप
जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली

सभी इच्छुक उम्मीदवार 18 जनवरी, 2021 या उससे पहले गूगल फॉर्म भर दें।

पंजीकरण के लिए:

[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer07IzO5rJ006rwhg65Jehf_tCNTxMYIUmdl-8JicTWezpKw/viewform?usp=sf link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer07IzO5rJ006rwhg65Jehf_tCNTxMYIUmdl-8JicTWezpKw/viewform?usp=sf_link)

पूरी जानकारी के लिए jmi.ac.in देखें।

अहमद अज़ीम

जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया समन्वयक